



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 470] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 7, 1980/अश्विन 15, 1902  
No. 470] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 1980/ASVINA 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)  
नई, दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1980

आदेश

का०आ० सं 838(अ) :—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 601(अ०) 1/18क/आई/डी आर ए/74, तारीख 8 अक्टूबर, 1974 द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट प्रवृत्त बोर्ड की सैमर्स इस्टर्न डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के पूर्ण औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध प्रहण के लिए 8 अक्टूबर, 1974 से आरम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 237 (अ०) तारीख 1 मई 1979 द्वारा, सचिव, रतन और बन्द उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार को, सैमर्स इस्टर्न डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के पूर्ण उपक्रम के प्रबंध प्रहण के लिए, 8 अक्टूबर, 1974 से पांच वर्ष के अवसान तक प्राधिकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने, आदेश सं० का० आ० 556(अ०)/18क/आई/डी आर ए/79, तारीख 28 सितम्बर, 1979 द्वारा निदेश दिया था कि उक्त आदेश का प्रभाव 8 अक्टूबर, 1979 से एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रहेगा.

और उक्त आदेश, उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् 8 अक्टूबर, 1980 को प्रभावी नहीं रहेगा;

और केन्द्रीय सरकार का राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि समय-समय पर यथासंशोधित उक्त आदेश सं० का० आ० 601(अ०)/18क/आई/डी आर ए/74, तारीख 8 अक्टूबर, 1974 का, उपर्युक्त छह वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् प्रभाव बना रहना चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि समय-समय पर यथासंशोधित तारीख 8 अक्टूबर, 1974 के उक्त आदेश का प्रभाव 8 अक्टूबर, 1980 से एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रहेगा।

[का० सं० 2(16)/79-सी० यू० सी०]

य० राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 7th October, 1980

ORDER

S.O. 838(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) by the Orders of the Government of India, in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 601(E)/18A/IDRA/74, dated the 8th October, 1974 and the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 566(E), dated the 25th September, 1978 authorised the Board of Management specified therein to take over the management of the whole of the industrial undertaking, namely, Messers, Eastern Distilleries Private Limited, Calcutta for a period of five years, commencing from the 8th October, 1974;

And whereas by the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 237(E), dated the 1st May, 1979, the Central Government authorised the Secretary, Sick and Closed Industries Department, Government of West Bengal, to take over management of the whole of the undertaking, namely, Messers. Eastern Distilleries Private Limited, Calcutta, upto the expiry of five years from the 8th October, 1974;

And whereas by Order No. S.O. 556(E)/18A/IDRA/79, dated the 28th September, 1979, the Central Government directed that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year from 8th October, 1979;

And whereas the said Orders shall cease to have effect on the 8th October, 1980, after the expiry of the said period;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order No. S.O. 601(E)/18A/IDRA/74, dated the 8th October, 1974 as amended from time to time, should continue to have effect after the expiry of the period of six years aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 8th October, 1974, as amended from time to time, shall continue to have effect for a further period of one year from the 8th October, 1980.

[File No. 2(16)/79-Cus.]

B. ROY, Jt. Secy.